

CONSTITUTION
OF
INDIA



CONSTITUTION OF INDIA


LLR00
196
1764
2000
00
1990
Date 1



Barcode label with numbers: 9 300 000 110 0

India (Republic)

THE
CONSTITUTION OF INDIA



THE
CONSTITUTION OF INDIA


WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation:
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.



1
303



26 NOV 1949



PREM





The Constitution of India

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA,
having solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST
SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought,
expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the
individual and the unity and
integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION.



42 = 11 = 5

42 =

42 =

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न,
समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला
सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

42 =



भाग - 01

संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 01 से 04

Union and its Territories 1 - 4





भाग - 01

अनुच्छेद 01 संघ का नाम
राज्यक्षेत्र/Article 01
Name of the Union
territory

India
भारत

अनुच्छेद 02 नये
राज्य और प्रदेश
/Article 02 New
States and
Territories

अनुच्छेद 03 नये
राज्य निर्माण
/Article 03 New
State Creation


अनुच्छेद 04 एक
और 4 सच्ची
संशोधन नहीं
/Article 04
Another 4 not
true
amendments



भाग - 02

नागरिकता अनुच्छेद 05 से 11

Citizenship





भाग - 02

26 Jan 1950

19 July 1948

11 March 1947

Parliament

अनुच्छेद 05
नागरिकता / Article
05 citizenship

अनुच्छेद 06 भारत से
पाकिस्तान / Article 06
Bharat to Pakistan

अनुच्छेद 09 विदेशी
नागरिकता / Article 09
foreign citizenship

अनुच्छेद 11 संसद
विधि / Article 10
Parliament law

अनुच्छेद 06 पाकिस्तान
से भारत / Article 06
Pakistan to India

अनुच्छेद 08 भारत के
बाहर / Article 08
outside India

अनुच्छेद 10 अधिकार
बनें रहना / Article 10
stay right

1955

Dr. Srinivasa



भाग - 03

मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35

F.R
Magna Carta
1215



Part III




भाग - 03



अनुच्छेद 12 राज्य
परिभाषा/Article 12
State definition

Union/legislature
State
Local
Other




अनुच्छेद 13 FR से
असंगत विधि/Article 13
Method incompatible
with FR



14-18



19-22



23-24



32



25-28





29-30





1. समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18







- 16(1) ✓
- 16(2) ✓
- 16(3) → अपना
- 16(4) ✓
- 16(5) ✓
- 16(6) ✓



2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22







3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24

Forced Labour

अनुच्छेद 23 दुरुव्यवहार, बेगार

बालातश्रम का निषेध 23 (2) *Min*

अनिवार्य सेवा / Article 23

Prohibition of ill-treatment,
forced labor and child labor 23

(2) Compulsory service

कच्चे 4

अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के

नियोजन का प्रतिषेध / Article 24


Prohibition of employment of

children in factories

14-18



4. धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28






5. संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30

अनुच्छेद 29 भाषा लिपि संस्कृति
संरक्षण / Article 23 Language
Script Culture Conservation

अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्था स्थापना
का प्रबंध / Article 24
Management of establishment
of educational institution

परिष्कारित


मिनिट्टे





Right of Const Remedies:

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32



- 82
- ⇒ Habeas Corpus - कैदी = पुनर्परीक्षण ✓.
 - Mandamus - परमादेश
 - Prohibition - प्रतिषेध
 - Certiorari - उपदेश
 - ⇒ Quo-warranto - अधिकार प्रच्छेद।





Part

भाग - 04 — Ireland

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51

Directive Principles of State

↓
निर्देश



Part IV

Directive Principles of State Policy



DPSP

अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा / Article 36 definition of state

12

अनुच्छेद 37 DPSP की विधिक स्थिति / Article 37 Legal Status of DPSP

Non-जमानेय स्थिति

अनुच्छेद 38 सामाजिक बायवस्था / Article 38 social order

S
E
P
जमानेय





DPSP

39(A)

अनुच्छेद 39(A) समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता /Article 39(A) Equal Justice Free Legal Aid.

अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत /Article 40 Village Panchayat

अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार /Article 41 Right to work, education, public assistance in certain cases

Welfare
LAW

अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत मानवोचित दशा प्रसूति सहायता /Article 42 just human condition of work maternity relief.



DPSSP

97-2011

43(3)

अनुच्छेद 43 कर्मकारों को
निर्वाह मजदूरी (कुटीर
उद्योग) /Article 43 living
wage to workers
(cottage industry).

अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में
कर्मकार सहभागिता /Article 43A
worker participation in the
management of industries

अनुच्छेद 43B सहकारी
समिति /Article 43B co-
operative committee .



21A-6से14

2mp

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता / Article 44 Uniform Civil Code

गोवा

0-6

अनुच्छेद 45 बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा / Article 45 Free and compulsory education for children

15(A)
16(A)
आरक्षण

अनुच्छेद 46 SC/ST/ दुर्बल वर्ग (शिक्षा-(अर्थ) हित / Article 46 SC/ST/Weaker Sections (Education-(Meaning) interest

अनुच्छेद 47 प्राथमिक कर्तव्य पोषाहार, जीवन, लोकस्वास्थ्य / Article 47 Primary Duties Nutrition, Life, Public Health



DPSSP

अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन / Article 48 Agriculture and Animal Husbandry Organization

अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण, वन वन्य जीव रक्षा / Article 48A Environment protection, forest wildlife protection.

अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण / Article 49 National Monument Protection.

7

48(A)

50

← सायबालिका - कार्मपालिका
Judiciary

NJAC

51

International Peace
↓
आंतरराष्ट्रीय

विदेश नीति



भाग - 04A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A

मूल कर्तव्य - 142/1976

सोवियत संघ (USSR)

10 - F.P

11 = 86 वां 2002



अनुच्छेद/article 51A

- (a) (1) ⁰⁰
आदर/
Respect
- (b) ②
संजोना
/cherish
- (c) S,I,U ③
- (d) रक्षा/सेवा
/Defense 4
- (e) भ्रातृत्व
निर्माण
/fraternity
building ④



अनुच्छेद/article 51A

6
 (i) value and preserve culture
 संस्कृति

7
 (g) ENV Protection
 पर्यावरण

8
 (h) विकास /Development
 वैज्ञानिक शोध

9 No
 (i) हिंसा से दूर/away from violence

10
 (j) सतत प्रयास/continuous effort
 11
 (k) अवसर दे /Give opportunity


value and preserve the heritage of our composite culture



भाग - 05

संघ अनुच्छेद 52 से 151

= Union



Part V

The Union

Chapter I.—The Executive

The President and Vice-President



भाग 5

अध्याय-01 कार्यपालिका
अनु. 52-78 / Chapter-01
Executive Anu. 52-78

अध्याय-03 राष्ट्रपती की विधायी
शक्ति अनु. 123 / Chapter-03
Legislative power of the
President. 123.


CAG
अध्याय-05 CAG अनु.
148 -151 / Chapter-05
CAG Sec. 148 -151

अध्याय-02 संसद अनु. 79-
122 / Chapter-02
Parliament Art. 79-122

अध्याय-04 न्यायपालिका
अनु. 124 -147 / Chapter-04
Judiciary Sec. 124 -147



अध्याय-1 कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78





2000

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पदावधि/
Article 56 presidential term.

5 वर्ष
V.P
[Impeachment]

re-election

अनुच्छेद 57 पुननिर्वाचन
/Article 57 re-election.

Age 35
नागरिक

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति
योग्यता /Article 58
Presidential
Qualification.

पद की शर्तें

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पर की शर्तें /
Article 55 terms on the president.

office



2

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शपथ
/Article 60 Oath of the
President.

संविधान
Prosecuted
defend

CJI

L.S.R.S. संविधान
violation

2/3

अनुच्छेद 61 महाभियोग
प्रक्रिया /Article 61
Impeachment Procedure.

अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद रिक्ति /
Article 62 Presidential Vacancy.

6 (→ कार्यवाही)



Vice President

63 Vice President
उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति
निर्वाचन / Article 66 Vice
President Election.

2nd
V.P. — ex officio

अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति
के रूप में / Article 65 Vice
President as President.

President

अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन
सभापति / Article 64 Vice President ex-
officio Chairman of Rajya Sabha.



61

अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति निर्वाचन / Article 66 Vice President Election.

All members of Lok Sabha + Rajya Sabha

5 वर्षों के लिए

अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति पदावधि / Article 67 vice presidential term.

अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति / Article 68 Vacancy of the Office of the Vice President.

प्रकाश



अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति
शपथ / Article 69 Vice
President Oath.

↓ संविधान

↓ राष्ट्रपति

Parliament

अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
निर्वाचन विवाद / Article 71
President Vice President
Election Dispute.

SC

अनुच्छेद 70 आकस्मिकता में राष्ट्रपति के
कृत्य निर्वहन (संसद शक्ति) / Article 70
President's discharge of functions
in emergency (Parliament power)



क्षमा

अनुच्छेद/article 72 क्षमा

क्षमा
pardon

प्रविलंबन
Reprive

विराम
Respite

परिहार
Remission


लघूकरण
Commutation

मृत्यु क्षमा

पुष्टि
Nalun



अनुच्छेद-73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार





मंत्रिपरिषद

Council of

74

अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद
(सलाह और सहायता)/Article
74 Council of Ministers
(Advice and Aid)

74

75

President

अनुच्छेद 75 मंत्री- नियुक्ति

संख्या पदावधि

President's

उत्तरदायित्व/Article 75

Minister- Appointment

Number Tenure

Accountability.

PM



अनुच्छेद-76 भारत का महान्यायवादी (AG)

Attorney General India

कारण - विधि अधिकारी

First Law Officer

राष्ट्रपति

SC ✓

विराट

काशी



सरकारी कार्य का संचालन

8


अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति नाम से / Article 77 Conduct of business of the Government of India in the name of the President

Business of the Govt of India

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य अध्यक्ष / Article 78 Duties of the Prime Minister.



अध्याय-2 संसद अनुच्छेद 79 से 122





अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि /
Article 83 Duration of the

Houses

⇒ L.S - 5 वर्ष - 3

- R.S = Indefinite - अनिश्चित

अनुच्छेद 84 संसद योग्यता /
Article 84 Parliament
Qualification

- R.S - 30

- L.S - 25



अनुच्छेद - 85 संसद सत्र

राष्ट्रपति (President)

आह्वान
summon

≠
President.

सत्रावसान
prorogue

लोकसभा का विघटन
Dissolution of Lok Sabha



राष्ट्रपति अभिभाषण

Addresses of President

अनुच्छेद 86/ सामान्य संबोधन
संदेश / Article 86/General
Address Message

↓ Address


अनुच्छेद 87 विशेष संबोधन /
Article 87 Special Address\
F,M

→ Budget session.
→ General Electr.

⋮



अनुच्छेद 88 सदनों में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार





संसद के अधिकारी

Officers of Parliament

अनुच्छेद 8 राज्यसभा सभापति उप
अध्यक्ष / Article 8 Rajya Sabha
Chairman Deputy Chairman

*Chairman
vice-chairman*

अनुच्छेद 90 उप सभापति का पद
रिक्त पदत्याग, पद से हटाना
/ Article 90_Vacant

उपसभापति

~~*उपसभापति*~~
~~*उपसभापति*~~

resignation of the post of
Deputy Chairman, removal
from office.



अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में
अन्य की शक्ति/Article 91
Power of others as Chairman

नहीं करेगा ✓

Chairman

कार्रवाई

अनुच्छेद 92 सभापति/उपसभापति
पद से हटाने का संकल्प
विचाराधीन /Article 92
**Resolution for removal from
the post of Chairman/Deputy
Chairman under
consideration**



NAOT →

लोहसभा

Effective प्रभावी

अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष
उपाध्यक्ष / Article 93 Lok
Sabha Speaker Deputy
Speaker

अनुच्छेद 94

लोकसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पद रिक्त,
पदत्याग पद से हटाना / Article 94
Lok Sabha Speaker / Deputy
Speaker vacant, removal from
office



अनुच्छेद 95

अध्यक्ष पद कर्तव्य अन्य की शक्ति

/Article 95

President Office Duties

Power of others

अध्यक्ष
President

अनुच्छेद 96

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद से हटाने का
संकल्प विचाराधीन/Article 96

Resolution to remove from the
post of President/Vice President
under consideration



अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते *A Levels*

सभापति / उपसभापति अध्यक्ष

उपाध्यक्ष / Article 97 Pay and

Allowances

Chairman Vice Chairman

Chairman Vice Chairman

अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय

/Article 98 Secretariat of

Parliament





कार्य का संचालन

अनुच्छेद 99 सदस्य शपथ/
Article 99 Member
Oath

राष्ट्रपति
President

विधेय
Speaker

अनुच्छेद 100
रिक्ति, निर्णायक मत
गणपूर्ति/Article 100
Vacancy, casting vote
quorum

10

10

10

राष्ट्रपति



सदस्यों की अयोग्यता Disqualification

अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना /Article 101
Vacancy of seats

60 Days का फिटर



अनुच्छेद 102 सदस्य-अयोग्यता /Article 102
Members - Disqualification

अनुच्छेद 103 निर्णय /Article 103 Decision

शास्त्र

अनुच्छेद 104 बिना शपथ शास्त्र /Article 104
Penalty without oath





Bare Act

M & M D

अनुच्छेद 105 संसदीय
विशेषाधिकार/Article 105
Parliamentary Privileges

अनुच्छेद 106 वेतन भत्ते ~~मंत्र~~
/Article 106 Wage Allowances
PARLIMENT BY LAW

जुरा




विधायी प्रक्रिया

अनुच्छेद-107 विधेयकों का पुरःस्थापन

Provisions as to introduction and passing of Bills



अनुच्छेद-108 संयुक्त बैठक Joint Sitting





अनुच्छेद 109 धन विधेयक विशेष प्रक्रिया /Article 109 Money

Bill Special procedure

↓ money bill
L's

अनुच्छेद 110 धन विधेयक परिभाषा /Article 110 Definition of Money

Bill

→ Tax ✓
→ Remission



अनुच्छेद-111 विधेयको पर अनुमति

Assent to Bills When a Bill has been passed by the Houses of Parliament,



X - veto power



Budget

अनुच्छेद 112 वार्षिक
वित्तीय

विवरण/Article 112
Annual Financial
Statement

Estimates

अनुच्छेद 113 प्राक्कलन के
संबंध में प्रक्रिया/Article
113 Procedure in
relation to estimates

अनुच्छेद 114 विनियोग
विधेयक/Article 114
Appropriation Bill

C.F.I



अनुच्छेद-115

अनुपूरक
supplementary

अतिरिक्त
Additional

अधिक अनुदान
Excess grants

अतिरिक्त



अनुच्छेद-116

लेखानुदान
vote on account

Budget

अतिरिक्त
सुचारु

पार्लियामेंट





अनुच्छेद-117 वित्त विधेयक प्रावधान

Finance bill

117

Every finance - money bill X

Money bill - finance ✓



साधारणतया प्रक्रिया

Procedure

अनुच्छेद 118 प्रक्रिया
के नियम / Article
118 Rules of
Procedure

*LS
& Y
vice*

अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्य
प्रक्रिया-विधि द्वारा
विनियमन / Article 119
Financial Procedures-
Regulation by Law

अनुच्छेद 120 संसद- भाषा
/ Article 120 Parliament-
Language

English / Hindi



अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर
रोक / Article 121 ban on
discussion in Parliament

court

court
समक्ष


185


अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद
कार्यवाही की जाँच नहीं / Article 122
Parliament proceedings not to be
inquired into by the court

Parliament
जाँच

अध्याय-3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति (अध्यादेश)

अनुच्छेद-123 Ordinance





Time for
a BREAK

5 MIN



AA 124-1



~~Henry~~
officer 9



अध्याय-4 अनुच्छेद 124 से 147

Sc

अनुच्छेद 124 सर्वोच्च
न्यायालय की स्थापना
एवं गठन

34

33+1

2.404
9544

अनुच्छेद 125 वेतन
भत्ते/Article 125 Wage
Allowances

10K


अनुच्छेद 126 कार्यवाहक CJI
/Article 126 Acting CJI

राष्ट्रपति - President





SC अधिकारिता





1935

अनुच्छेद 135 फेडरल न्यायालय
SC/Article 135 Federal
Court SC

136

अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत
SLP /Article 136 Special
license SLP



Reviews


अनुच्छेद 137 निर्णयों का
पुनर्विलोकन/Article 137

Revision of decisions

अनुच्छेद 138 SC
अधिकारिता शक्ति /Article

138 Powers of SC

EXTEND





अनुच्छेद 140 आनुषंगिक
शक्तियाँ (संसद विधि)
/Article 140 Incidental
Powers (Parliament
Act)

विधि


अनुच्छेद 141 SC विधि सभी
न्यायालयों पर आबद्धकर / Article 141
SC Law binding on all courts

अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय
/Article 142 Complete
justice



अनुच्छेद-143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

confers power on the President to consult the Supreme Court



Imp



अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक
प्राधिकारी SC की सहायता ही
कार्य/Article 144 acts only in aid
of the civil and judicial
authorities SC

अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम
(संसद विधि के अधीन राष्ट्रपति से
अनुमोदन) /Article 145 Rules
of Court (Approval by
President subject to Act of
Parliament)




SC

अनुच्छेद 146 SC के अधिकारी सेवक
नियुक्ति - CJI वेतन संचित
निधि/Article 146 SC Officer
Servant Appointment - CJI
Salary Consolidated Fund

अनुच्छेद 147 निर्वचन (Interpretation)
(संविधान के निर्वचन में Gov Act
1935/1947 में भी) / Interpretation (in
the interpretation of the
Constitution also in Gov Act
1935/1947)



अध्याय-5 CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151






भाग-6 राज्य

State

अनुच्छेद 152 से 237





अध्याय-1 सामान्य (परिभाषाएं) अनुच्छेद 152

N G



अध्याय-2 कार्यपालिका अनुच्छेद 153-167

अनुच्छेद 153
राज्यपाल / Article
153 Governor

अनुच्छेद 153 की संशोधन विधायक
22/10/2019

State

अनुच्छेद 154 राज्य की
कार्यपालिका
शक्ति / Article 154
Executive power of
the State

अनुच्छेद 155 राज्यपाल की
नियुक्ति
/ Article 155 Appointment
of Governor



अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि / Article 156 Tenure of Governor

प्रकार - President
5 वर्ष

भारत गणराज्य
36 वर्ष

अनुच्छेद 157 राज्यपाल योग्यता / Article 157 Qualification of Governor

अनुच्छेद 158 राज्यपाल शर्तें / Article 158 Terms of Governor

सुरत या सदस्य

अनुच्छेद 159 शपथ / Article 159 Oath

उच्च न्यायालय
HC-CJ



अनुच्छेद 160 आकस्मिकता
में राज्यपाल के कृत्यों का
निर्वहन / Article 160
Discharge of acts of the
Governor in emergencies

अनुच्छेद
161 क्षमादान / Article
161 Pardon

अनुच्छेद 162 राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
/ Article 162 Extension of
State or Executive Powers

72 State

विक्र
PUP
Ray



मंत्रिपरिषद

Q

अनुच्छेद 163 सहायता
सलाह हेतु मंत्रिपरिषद /
Article 163 Council of
Ministers for assistance

अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल
संख्या ST कल्याण मंत्री(CH, JH, MP, OD)
उत्तरदायित्व / Article 164 Appointment of
Ministers Tenure Number ST Welfare
Minister (CH, JH, MP, OD)
Responsibilities

SPL

#



अनुच्छेद-165 राज्य का महाधिवक्ता

Advocate general

परिभाषित

Advocate General of state

राज्य state

राज्यपाल



सरकारी कार्य का संचालन

अनुच्छेद 166 कार्यपालिका
करिवाइ राज्यपाल के नाम
से / Article 166
Executive action in the
name of the Governor

CM

अनुच्छेद 167 राज्यपाल के प्रति
मुख्यमंत्री के कर्तव्य / Article 167
Duties of the Chief Minister
towards the Governor

PM = 78



अध्याय-3 राज्य का विधानमण्डल अनुच्छेद 168 से 212

अनुच्छेद 168 विधानमण्डल का गठन / Article 168

Constitution of Legislature

राज्यपाल
विधानसभा - A
परिषद - LL

2-सदर
1-सदर

अनुच्छेद (169 विधान परिषद संविधान लोकोधन

उत्सादन - सृजन, /Article (169

Legislative Council


~~Constitution Logodhan~~

creation,

Parliament



अनुच्छेद 170 विधानसभा
 संरचना / Article 170
 Assembly structure



अनुच्छेद 171 विधान परिषद
 संरचना / Article 171
 Legislative Council
 Structure





अनुच्छेद 172 विधानमण्डल

अवधि / Article 172

Legislature Period

L.A 5 वर्ष
विधानपरिषद - 2-4/20
* Permanent

अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता / Article

173 Qualification of

members of the Legislature

MAVA

25 वर्ष

MIL

30 वर्ष



अनुच्छेद-174 विधानमण्डल सत्र आरंभ सत्रावसान और विघटन

Art 174

A BS

Summon

Dissolve




राज्यपाल अभिभाषण

अनुच्छेद 175 अभिभाषण
/ संदेश / Article 175
Address/ message
General

अनुच्छेद 176 विशेष संबोधन
/Article 176 Special
Address
Budget (सूच)



अनुच्छेद-177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार





विधानमण्डल के अधिकारी

अनुच्छेद 178
विधानसभा अध्यक्ष
उपाध्यक्ष / Article 178
Assembly Speaker
Deputy Speaker

ALCA

विधान

179 के साथ अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के पद रिक्त पदत्याग पद से हटाना / With 179, the post of President-Vice President is removed from the vacant post

अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति / Article 180 Power of other as Speaker



अनुच्छेद 181 अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति अध्यक्ष- उपाध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प

विचाराधीन(पीठासीन नहीं)/Article 181 Article 180

Power of others as President Resolution to remove from the post of President-Vice President under consideration (not presiding)





विधान परिषद

अनुच्छेद 182 विधान परिषद
सभापति उपसभापति / Article
182 Legislative Council
Chairman Deputy Chairman

विधान परिषद

अनुच्छेद 183 सभापति-उपसभापति
पद रिक्त पद त्याग पद से हटाया जाना
/Article 183 Chairman-Deputy
Chairman Vacancy Resignation
Removal from office

X Chairman



अनुच्छेद 184 सभापति के रूप में
अन्य की शक्ति / Article 184
Power of others as Chairman



अनुच्छेद 185 पद से हटाने का संकल्प
विचाराधीन/Resolution to remove
Article 185 under consideration





शापक लीसथे

186

अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति
उपसभापति वेतन भत्ते / Article 186
Speaker, Deputy Speaker,
Speaker, Deputy Speaker,
Salaries, Allowances

वेतन
2 इतर

अनुच्छेद 187 विधानमण्डल
सचिवालय/Article 187
Legislature Secretariat

विधान-



कार्य का संचालन

अनुच्छेद 188 सदस्यों की

शपथ / Article 188

Oath of members

उत्प्रेषण

अनुच्छेद 189 सदन में गणपूर्ति

/Article 189 Quorum in

the House

1/10



सदस्यों की निरहर्तताए / अयोग्यता

Members

अनुच्छेद 190 स्थान रिक्त होना
/Article 190 Vacancy

*60 Working Days
अयोग्यता*

अनुच्छेद 191 सदस्य-
अयोग्यता/Article 191
Disqualification of
members

अनुच्छेद 192 विनिश्चय
/Article 192 Decision governor

अनुच्छेद 193 बिना शपथ
बैठक / Article 193
Meeting without oath

*Fine
जुर्माना*

14x



अनुच्छेद 194 विधायक
विशेषाधिकार / Article 194
Legislative privilege

105

अनुच्छेद 195 वेतन
भत्ते / Article 195 Wage
Allowances

↓ विधायक संसद



विधायी प्रक्रिया

14 डिग्री

अनुच्छेद 196 विधेयक
प्रस्तावित / Article 196

Bill Proposed

साधारण

विधेयक

अनुच्छेद 197 धन विधेयक से भिन्न
विधेयक पर (विधानपरिषद की शक्तियों
पर रोक / Article 197 on a Bill other
than a Money Bill (restriction on
the powers of the Legislative
Council)

उपरोक्त



अनुच्छेद 198 धन विधेयक प्रक्रिया
/ Article 198 Money Bill

Procedure

198

109

राज्य
अनुच्छेद 199 धन विधेयक परिभाषा/Article 199
Definition of Money Bill

110-कर



111

अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति
/ Article 200 Allowance on

Bills

राजपाल

Revenue

रा. उपनि
आरक्षित

President

अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति विचार के
लिए आरक्षित विधेयक / Article
201 Bill reserved for
President's consideration

Handwritten scribbles and a signature in the bottom right corner.



वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद 202

वार्षिक वित्तीय विवरण

/Article 202

annual financial
statement

Budget

112

अनुच्छेद 203 प्राक्कलन के संबंध
में प्रक्रिया /Article 203

Procedure in relation to
estimates

अनुच्छेद 204 विनियोग

विधेयक

/Article 204

Appropriation Bill



अनुच्छेद 205 अनुपूरक
अतिरिक्त अधिक
अनुदान/Article 205
Supplementary additional
grant

अनुच्छेद 206 लेखानुदान
प्रत्यानुदान अपवादानुदान
/Article 206 Grant of
Accounts Grant of Credit
Exception Grant

117
207
अनुच्छेद 207 विचित्र
विधेयक के विशेष उपबंध
/Article 207 Special
provisions of the
Finance Bill



साधारणतया प्रक्रिया

सर-

अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के
नियम/Article 208 Rules of
Procedure

अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्य
प्रक्रिया का विनियमन /
Article 209 Regulation of
financial work procedures

अनुच्छेद 210 प्रयोग की भाषा
/Article 210 Language of
experiment



SC/HC

अनुच्छेद 211 चर्चा पर रोक /

Article 211 Prohibition on

discussion by


legislative ^{cr.}
An

अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा
कार्यवाही की जांच नहीं / Article

212 No review of
proceedings by court



अध्याय-4 राज्यपाल की विधायी शक्ति (अध्यादेश) अनुच्छेद-213





अध्याय – 5 राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232

अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए
उच्च न्यायालय /High Court
for Article 214 state

Compulsory
अनुच्छेद 215

अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय गठन
/Article 216 Constitution of
High Court

अनुच्छेद 215 H.C. अभिलेख न्यायालय /
Article 215 H.C. Court of Records

HC

Article 215



अनुच्छेद 217 न्यायाधीश नियुक्ति
पद की शर्तें / Article 217
Conditions of appointment of
judges

H.C.

President

राज्यपाल

अनुच्छेद 218 S.C. के प्रावधानों
का H.C. पर लागू होना / Article
218 S.C. The provisions of
H.C. Apply to



अनुच्छेद 221 वरी

अनुच्छेद 221 वेतन / Article

221 Wages

केंद्र - राज्य

केंद्र - केंद्र सरकार

अनुच्छेद/Article 222 H.C-

H.C. Transfar

#

राष्ट्रपति President



अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य
न्यायमूर्ति नियुक्ति / Article 223
Appointment of Acting Chief

Justice

President

HC

अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी
न्यायाधीश नियुक्ति/Article 224
Appointment of Upper and
Executive Judges

HC मुख्य कार्यकारी



अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीशों

की नियुक्ति / Article 224A

Appointment of retired judges

Retired judges

नियुक्ति

HC - Judge

अनुच्छेद 225

विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

/Article 225

Jurisdiction of existing High Courts

+ UP - UP तक

+ Behar - बिहार



अनुच्छेद 226 रिट निकालने की शक्ति / Article 226 Power to issue writ

SC 32
की
226

अनुच्छेद 227

सभी न्यायालयों के अधीक्षण की H.C. की शक्ति / Article 227 Superintendent of all Courts


H.C. That power

H.C. →

H.C. ↓



अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का H.C.
को अंतरण / Article 228
Transfer of certain cases to



पट्टा HC

अनुच्छेद 229

H.C. के आधिकारी व सेवक / Article 229

H.C. Officials and servants of K





अनुच्छेद 230

H. C. की विस्तार

अधिकारिता का U. T. पर / Article 230

H. C. Key Extension

Authority why U. T. Par

21/4

अनुच्छेद 231 दो या दो + राज्यों के

लिए एक H. C. की स्थापना/Article

231 Establishment of one H. C.

for two or two + States

Common
AS



अनुच्छेद- द- 232 निरसित





अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237

^{DUM}
अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की
नियुक्ति
(राज्यपाल) / Article 233
Appointment of District Judges
(Governor)

अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में DJ से
भिन्न नियुक्ति (राज्यपाल) / Article
234 Appointment in judicial
service other than DJ (Governor)



अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों
पर नियंत्रण H.C. / Article 235

Control over Subordinate

Courts H.C.

H.C
↓ Control

अनुच्छेद 236

(निर्वचन 2 जिला न्यायाधीश न्यायिक

सेवा/Article 236

(Interpretation 2 District Judge

Judicial Service

X



अनुच्छेद-237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के प्रावधानों का लागू होना (राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से)

Judge

~~Magistrate~~
इंसा अधिकारी




भाग-7 राज्य निरसित राज्य (B श्रेणी) अनुच्छेद-238

7 An - 1956

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निरसित

238





U-T

भाग-8 संघ राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद-239 से 242

Union territories



Part VIII

The States in Part C of the First Schedule



अनुच्छेद-239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन





अनुच्छेद-239A कुछ U. T. के लिए स्थानीय विद्यामण्डल या मंत्रिपरिषद
या दोनों का सृजन (संसद विधि द्वारा)

239(A)

(पुडुचेरी और जम्मू- कश्मीर)

UT



अनुच्छेद-239AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

(69th CAA-1991)

- ⊗ विधानसभा
- ⊗ H.C

↓ ⊗


#

↓ DELHI

NCT



अनुच्छेद-239B सांविधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध





अनुच्छेद- 239B प्रशासक द्वारा अध्यादेश

राष्ट्रपति - President
123

Governor
Ar 213

Administrative
239(B)



अनुच्छेद-240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की

राष्ट्रपति की शक्ति

President vs Regulation



अनुच्छेद-241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

(संसद विधि)





अनुच्छेद-242 कूर्ग coorg से संबंधित

~~7th~~ CAA द्वारा निरसित

A ✓

B ✓


C ✓

D ✓



भाग-9 पंचायत

मिहामन वल्लीमी पर वेटे उज्जैन
के राजा विक्रमादित्य





अनुच्छेद 243 से 243 O

अनुच्छेद 243 परिभाषा
/Article 243 Definitions

अनुच्छेद 243A ग्राम
सभा / Article 243 A Gram
Sabha

अनुच्छेद 243B पंचायत गठन
/Article 243B Constitution of
Panchayat

अनुच्छेद 243C पंचायत
संरचना / Article 243C
Panchayat structure

2mp

2





722M

अनुच्छेद 243 D आरक्षण
/Article 243 D Reservation

33.1

3

50%

अनुच्छेद 243E अवधि
/Article 243E Period

1M

57 पुनर्गठन

अनुच्छेद 243I वित्त आयोग
/Article 243I Finance
Commission

243I

राज्यपाल

राज्यसभा

राज्य

अनुच्छेद 243K निर्वाचन
/ Article 243K
Election

722

राज्यसभा
निर्वाचन
राज्यपाल



भाग- 9A नगरपालिकाएँ अनुच्छेद 243P से 243ZG

अनुच्छेद 243P परिभाषा
/Article 243P Definitions

X

अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाएँ
गठन/Article 243Q

Mayor/सुपरी

Council
परिषद

अनुच्छेद 243R संरचना
/Article 243R Structure

अनुच्छेद 243T आरक्षण
/ Article 243T
Reservation

कारि
किंगरी

243T
331



अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना
समिति / Article 243 ZD
District Planning Committee

अनुच्छेद 243 ZE महानगर योजना
समिति/Article 243 ZE Metropolitan
Planning Committee





भाग - 9B सहकारी समितियाँ अनुच्छेद 243ZH से 243ZT

अनुच्छेद 243 ZH परिभाषा

/Article 243 ZH Definition

अनुच्छेद 243ZJ बोर्ड सदस्य

पदाधिकारी संख्या

/Article 243ZJ Board

Member Office No

अनुच्छेद 243ZI सहकारी समितियों का

समामेलन /


Article 243ZI for co-operative societies

amalgamation



PART-10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244A

Sch -






भाग - 11 संघ और राज्य के बीच संबंध

अनुच्छेद 245 से 263

Centre-State Relations

M. Prasad





भाग - 11 विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255

अनुच्छेद 245- संसद – विधानमण्डल
विधियों का विस्तार/Article 245-
Parliament – Extension of
Legislative Statutes

Centre	100
राज्य	61
सुमेली	52

अनुच्छेद 246A_ GST के संबंध में
/Article 246A_ Relation to
GST

अनुच्छेद 246 विधियों की विषय वस्तु /
Article 246 Subject matter of
SUBJECTS LIST

संघ
विधायक
1704

अनुच्छेद 246A_ GST के संबंध में



अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालय
स्थापना- संसद / Article 247
Establishment of Additional
Courts- Parliament

अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्ति/Article
248 Residual power

UNISON
अवशिष्ट
प्रश्न



अनुच्छेद 249 राज्यसूची -
राष्ट्रीयहित संसद शक्ति / Article

249 List of States – Powers of

Parliament in National

Interest

249

RS

अनुच्छेद 250 आपात में राज्यसूची- संसद
शक्ति/Article 250 List of States in

Emergency – Powers of Parliament

State
सूची



Parliament

अनुच्छेद 251 अनु. 249, 250 में
संसद व विधानमण्डल विधि में
असंगति / Article 251 Sec.

Inconsistency in Parliament
and Legislature in 249, 250

अनुच्छेद 252 दो या दो + राज्यों की
सहमति से संसद विधि / Article 252 Act
of Parliament with the consent of
two or two + States

~~9-8 X~~

~~10-10 X~~



अनुच्छेद 253 अन्तरराष्ट्रीय करार के
लिए विधि / Article 253 Law on
international treaties

India -

अनुच्छेद 254 संसद- विधायिका
अधिनियम असंगति / Article 254
Parliament-Legislative Acts
Inconsistency



अनुच्छेद-255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं
को केवल प्रक्रिया के विषय मानना



अध्याय-2 प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263

अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की
बाध्यता/Article 256 Key of States
and Union Obligation

Union

अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति
प्रदान करने की संघ की शक्ति
/Article 258 Power of Union to confer
powers on States in certain cases

अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में संघ का राज्यों
पर नियंत्रण /

Article 257 Control of the Union by
the States in certain cases



भारत

अनुच्छेद 25 संघ को कृत्य सौंपने की
राज्य की शक्ति / Article 25 Delegation
of powers to the Union

अनुच्छेद 260 भारत के बाहर संघ की
अधिकारिता
/ Article 260 Jurisdiction of union
outside India



अनुच्छेद-261 संघ और राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख
और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता

..



अनुच्छेद-262 अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद के न्याय

निर्णयन के उपबंध (संसद)

(SC प्रयोग निशेध – विधि)

Inter State Water Dispute



अनुच्छेद-263 अन्तरराज्यीय परिषद





भाग-12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद

अनुच्छेद 264 से 300A





अनुच्छेद 264 निर्वचन
(वित्त आयोग 280 वाला) / Article
264 Interpretation
(Finance Commission 280)

अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना
कर नहीं लगेगा /Article 265 shall not
be taxed without the authority of
law



मूल

अनुच्छेद 266 भारत और राज्य की संचित निधि / Article 266

Consolidated Fund of India

and States

266-CFI

266A- लोकसेवा निधि

अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि (भारत व राज्य) / Article 267 Contingency

Fund (India and States)

Emergency

30000 करोड़



संघ और राज्य - राजस्व विवरण

अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित राज्य द्वारा संग्रहित व विनियोजित शुल्क
/Improper 268 The fees collected and appropriated by the State as levied by the Union

Centre - State

अनुच्छेद 268 A Inter State GST
/Article 268 A Inter State GST

अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित राज्य द्वारा संग्रहित व राज्यों को सौंपे जाने वाले कर /

269 Unfair 269 Taxes collected by the State and the taxes to be assigned to the States



अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर संघ व
राज्यों में वितरण
/Article 270 Distributed Tax
Union and States

अनुच्छेद 273 जूट/ उत्पाद निर्यात शुल्क पर
अनुदान (असम, बिहार, उड़ीसा प.
बंगाल)/Article 273 Grant on
Jute/Excise Export Duty (Assam,
Bihar, Orissa West Bengal)

अनुच्छेद 271 शुल्क व करों पर अधिभार /
Surcharge on Article 271 Fees and
Taxes




अनुच्छेद 274 राज्य हित बद्ध (कर) (कृषि
आय परिभाषा विधेयक पर पूर्वानुमति /
**Article 274 State Interest Bonds
(Tax) (Pre-emption on Agricultural
Income Definition Bill**

अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से
अनुदान/**Article 275 Union grants to
certain states**



अनुच्छेद 27 शुद्ध आगम की गणना
(Net Proceeds) / Article 27
Calculation of Net Proceeds





KK

अनुच्छेद 280 वित्त आयोग /
Article 280 Finance
Commission

243 P

243 Y

अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की
सिफारिशें / Article 281

Recommendations of Finance
Commission

1

राज्यपाल
President,

1



अनुच्छेद 282

संघ या राज्य अपने राजस्व से व्यय

(अनुदान आदि) / Article 282

Expenditure (Grants etc.)

from Union or State own

revenue

अनुच्छेद 283

संचित निधि आकस्मिकता निधि लोक लेखा में

जमा धनराशि की अभिरक्षा (संसद- वी.एम.

विधि)/Article 283

Accumulated Fund Contingency Fund

Custody of funds deposited in Public

Accounts (Parliament- VM Act)



अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर
कर आरोपण में निर्बंधन (राज्य बाहर
एवं निर्यात- आपात)/ Article 286
Restrictions on levy of tax on
purchase and sale of goods (Out
of State and export – emergency)

अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों में छूट (भारत
सरकार / रेल)/Article 287 Exemption
in taxes on electricity (Government
of India / Railways)



अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध
में राज्यों द्वारा कराधान से छूट/ Article
288 Exemption from taxation by
States in respect of water or
electricity

अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति को संघ के
कराधान से छूट/Article 289
Exemption of property of States
from Union taxation



**अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के
संबंध में समायोजन/**

**Article 290 Adjustment in respect
of certain expenses and pensions**

**अनुच्छेद 291 प्रिवी पर्स (निरसित) 26th
CAA 1971/Article 291 Privy Purse
(Repealed) 26th CAA 1971**

**अनुच्छेद 290A कुछ देवस्वम निधि को
वार्षिक भुगतान /**

**Article 290A Annual payment to
certain Devaswam funds**



अध्याय-2 उधार लेना अनुच्छेद 292 से 293

अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार
लेना / Article 292 Borrowing by
Government of India

अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार
लेना/Article 293 Borrowing by
States



अध्याय-3 अनुच्छेद 294 से 300

अनुच्छेद 294 से 295 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार / Articles 294 to 295 Succession to property, rights, liabilities and obligations in certain cases

अनुच्छेद 296 राजगामी का व्यापग स्वामी होने के नाते प्रोदुभूत संपत्ति/Article 296 Property accruing as a sovereign lord



अनुच्छेद 297

राज्य क्षेत्रीय सागर खंड महाद्वीपीय मग्नतट में मूल्यवान चीजें
व अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति संघ की/ Article 297
State Territorial Sea Continent Valuable in
continental shelf

Things and Exclusive Economic Zone Property

Union Keys

अनुच्छेद 298 संघ व राज्य की व्यापार
करने की शक्ति (विधि के अधीन)/Article
298 Powers of Union and States to
trade (subject to law)



अनुच्छेद 299 संविदाएँ **Contracts** (संघ – राष्ट्रपति राज्य – राज्यपाल के नाम से)/ **Article 299 Contracts** (Union – President State – Name of Governor)

अनुच्छेद 300 (वाद और कार्यवाहियाँ भारत सरकार – भारत संघ राज्य सरकार – नाम राज्य/**Article 300 (Controversies and Proceedings) Government of India – State Government of Union of India – Name State**)



अध्याय-4 संपत्ति का अधिकार (44th CAA 1978) के प्राधिकार के बिना

व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद-300A





भाग-13 भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307





अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य
समागम की स्वतंत्रता/ Article 301
Freedom of association of trade
and commerce

अनुच्छेद 302 निर्बंधन की संसद
की शक्ति/Article 302

Restriction
Restriction on power of
Parliament





अनुच्छेद 303 संघ और राज्य की विधायी शक्ति पर
निर्बंधन (राज्यों में वसूली नहीं)/ Article 303
Limitation on legislative power of Union
and State (not preempted by States)

अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य
समागम पर निर्बंधन (राज्य आयात पर कर लगा
सकता है 1)/Article 304 Restrictions on
trade and commerce between States
(imposition of tax on State imports
can.)




अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों की
व्यावृत्ति / Article 305 Amendment
of existing statutes

अनुच्छेद 306 संसद – अनु. 301 से 304 के
क्रियान्वयन के लिए प्राधिकारी की
नियुक्ति/Article 306 Parliament – Art.
Appointment of authority for execution
of 301 to 304



भाग – 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ





अध्याय-1 सेवाएँ

Services

अनुच्छेद 308

निर्वचन राज्य में जम्मू-कश्मीर नहीं

/Article 308

Nirwachan state is not in Jammu-Kashmir

अनुच्छेद 310 संघ राज्य सेवा का पदावधि

/Article 310 Tenure of Union State Service

Union State

अनुच्छेद 309 संघ व राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और शर्तें /

Article 309 Recruitment and conditions of persons serving Union and State

राष्ट्रपति
राज्यपाल



अनुच्छेद 311

संघ या राज्य सिविल सेवक

पदच्युत, पद से हटाया पदावनत करना नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ द्वारा नहीं / Article 311

Union or State Civil Servants

Dismissed, removed from post, demoted, not by the appointing authority, but by a subordinate



अनुच्छेद 312

अखिल भारतीय सेवाएँ / Article 312

All India Services

IAS

IPF

IFS



I



अनुच्छेद 313

संक्रमण कालीन उपबंध / Article

313 Transitional Provisions

अनुच्छेद 314 निरसित /,Article

314 repealed



अध्याय-2 लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 315

संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग

/Article 315

Union and State Public Service
Commissions

President

अनुच्छेद 317 सदस्य को हटाया जाना
निलम्बित किया जाना

/Article 317 Removal of member

Suspension

अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व
पदावधि /

Article 316 Appointment and term of
office of members



अनुच्छेद 318

सदस्य व कर्मचारी सेवा शर्तें (राष्ट्रपति राज्यपाल)

/Article 318

Conditions of Service of Members and

Employees (President Governor)

अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के

कृत्य

/Article 320 Act of Public Service

Commission

अनुच्छेद 319

सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण में प्रतिषेध /

Article 319

Prohibition from holding any other office other

than being a member



Extend

*BPPC
UPS*

अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्य का
विस्तार(संसद / वि.म.)

/Article 321 Extension of Acts of Public
Service Commission (Parliament/V.M.)

अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन
/Article 323 Report

*UPSC - President +
PSC - Governor*

अनुच्छेद 322 वेतन-भत्ते भारत / राज्य संचित निधि /
Article 322 Pay-allowances India / State Provident
Fund



भाग – 14A अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A

Tribunals



Election


Commission



भाग-15 निर्वाचन
अनुच्छेद 324 से 329



Part XV






अनुच्छेद 327 विधानमण्डल निर्वाचन में संसद की शक्ति
/Article 327 Powers of Parliament in Legislative Elections


अनुच्छेद 328 विधानमंडल निर्वाचन में विधानमंडल की शक्ति/
Article 328 Powers of Legislature in Legislative Elections

अनुच्छेद 329
निर्वाचन में (न्यायालय हस्तक्षेप का वर्जन)
/Article 329
Nirvana Mein (Version of Court Intervention)





भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध





अनुच्छेद 335 प्रशासनिक दक्षता
/Article 335 Administrative
vigilance

अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीयों के
लिए शैक्षिक अनुदान
/Article 337 Educational grant
for Anglo Indians

अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल-
भारतीय आरक्षण /
Article 336 Anglo-Indian
reservation in certain services



जनजाति

27-1

338(B)

15-1

10BC

अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग
/Article 338 Scheduled Castes
Commission

अनुच्छेद 338 पिछड़ा वर्ग आयोग
(102 CAA-2018)
/Article 338 Commission for
Backward Classes (102 CAA-

ST 7.5-1

SC

अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति
आयोग (89 CAA-2003) /
Article 338A Commission for
Scheduled Tribes (89 CAA-2003)

102ⁿ-2018

338(B)

15-1



अनुच्छेद 339

अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन व ST कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण/ Article 339

Control of Union regarding Scheduled Area Administration and

ST Welfare

अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशा अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति /Article 340 Appointment of commission to inquire into the condition of backward classes

1952-का



338 - SC
338A - ST
338B - OJ

340 - OBL
341 - SC
342 - ST

अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ
/Article 341 Scheduled Castes

अनुच्छेद 342A
सामाजिक-शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग
/Article 342A

Socio-Educationally Backward
Classes


SL

अनुच्छेद 342 अनुसूचित
जनजातियाँ /
Article 342 Scheduled Tribes

15(b)
16(b)

↓ 15(4)
16(4)


ST





भाग-17 राजभाषा
अनुच्छेद 343 से 351

official - law





अध्याय-1 संघ की भाषा

Union

Union

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा/
Article 343 Official language of
the Union HINDI

अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और
संसद Ki समिति/Article 344 Official
Language Commission and
Parliament Committee



अध्याय-2 प्रादेशिक भाषाएँ

state

ST
अनुच्छेद (345) राज्य या राजभाषा

/Article (345) Official language of the State

अनुच्छेद 347 जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा

बोली जाने वाली भाषा

(राष्ट्रपति-निदेश)

/Article 347 Language spoken by a substantial part of the population (Presidential Directive)

अनुच्छेद 346 राज्य से राज्य - संघ पञ्जादि भाषा/

Article 346 State to State - Language of the Union



अध्याय-3 S.C./ H.C. भाषा

अनुच्छेद 348 S.C. / H.C व विधेयकों की भाषा (अंग्रेजी)/ Article 348 S.C.
/ Language of H.C and Bills
(English)

Sum D

अनुच्छेद 349 विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया (राष्ट्रपति पूर्व अनुमति)
/Article 349 Procedure for
Enacting Laws (Prior Assent of the
President)



अध्याय-4 विशेष निर्देश

अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के आवेदन में भाषा (संघ राज्य प्रयोग वाली भाषा)
/Article 350 Language in Application for Relief of Pain (Union State Practice Language)

अनुच्छेद 350(B) भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी (नियुक्ति - राष्ट्रपति)
/Article 350B Special Officer for Linguistic Minorities (Appointment - President)

अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा/
Article 350A Facilitation of instruction in mother tongue at primary level

MP

Ext and 350B

अल्प

350


.nl

50'



अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

↓ Direction for the dev of Hindi!





भाग-18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360

Emergency

9-12

IACT



Part XVIII
Emergency Provisions



President

रक्षा-संघ


355

अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा
/Article 352 Proclamation of
emergency

अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आन्तरिक
अशांति से राज्य की संरक्षा का संघ का
दायित्व/ Article 355 Responsibility of
the Union to protect the State against
external aggression and internal
disturbances

अनुच्छेद 353 उद्घोषणा का
प्रभाव/Effect of Article
353 Proclamation

अनुच्छेद 354 राजस्व वितरण संबंधी
उपबंध
/Article 354 Provisions regarding
distribution of revenue





अनुच्छेद-राष्ट्रपति

अनुच्छेद 356 (राज्यों में सांविधानिक तंत्र
विफल (राष्ट्रपति शासन)/ Article 356
(Failure of Constitutional
Mechanism in States (President's
Rule)

356

अनुच्छेद 357

356 लागू होने पर विधायी
शक्ति /Article 357

356 Legislation on application
strength



358

अनुच्छेद 358 अनु. 19 निलंबन
/Article 358 Sec. 19 Suspension

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात
/Article 360 Financial distress

अनुच्छेद 359 भाग - 3 FR का निलंबन /
Suspension of Article 359 Part - 3 FR



भाग-19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367





भाग -19 प्रकीर्ण (विविध)

अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल संरक्षण
/Article 361 Protection of the President
Governor

अनुच्छेद 361B
लाभप्रद राजनीतिक पद के लिए
अनुचित(10 की अनुसूची के संदर्भ में)
/Article 361B
For a lucrative political position
Improper (with reference to 10th Schedule)

अनुच्छेद 361A

संसद – विधानमण्डल कार्यवाही प्रकाशन का
संरक्षण/Article 361A
Parliament – Protection of Publication of
Legislative Proceedings



अनुच्छेद 363 संधियों करारों में न्यायिक
हस्तक्षेप नहीं (देशी राज्य (शासक)/ Article
363 No Judicial Interference in
Union Agreements (Native State
(Government)

अनुच्छेद 364 महापत्तन विमान क्षेत्र के लिए
विशेष उपबंध (राष्ट्रपति) /Article 364
Special Provision for Metropolitan
Airports (President)



अनुच्छेद 365

संघ के निदेशों की पालना में असफलता का प्रभाव

/Article 365

Effect of failure to follow team instructions

अंग्ल/भारतीय

366(2)
Anglo Indian

अनुच्छेद 367 निर्वचन

/Article 367 Interpretation


अनुच्छेद 366 परिभाषाएं/Article 366

Definitions



भाग-20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368

Himalaya





भाग - 20

अनुच्छेद 368

संविधान संशोधन शक्ति और प्रक्रिया

(1)

संसद

(2)

368

(1)

अनुच्छेद 368 (2) बशर्ते कि (ए) 54, 55, 73, 162, 241, 279ए (बी) भाग - 5 अध्याय - 4 भाग - 6 अध्याय - 5 भाग - 11 अध्याय - 1 (C) सातवी अनुसूची (D) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (E) अनु.368



भाग-21 स्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध /

अनुच्छेद 369 से 392

SPL-Provisions



Part XXI

Temporary and Transitional Provisions



अनुच्छेद 369 राज्य सूची के विषयों पर
संसद शक्ति (प्रारंभ – 5 वर्ष) समवर्ती के
समान/ Article 369 Powers of
Parliament on matters of State List
(Commencement – 5 years) Same as
Concurrent

~~अनुच्छेद 370 सभी उपबंध जम्मू और
कश्मीर पर / Article 370 All provisions
on Jammu and Kashmir~~



विशेष उपबंध

371

अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात
/Article 371 Maharashtra,
Gujarat

अनुच्छेद 371A
नागालैण्ड/Article 371A
Nagaland

अनुच्छेद 371B असम
/Article 371B Assam

अनुच्छेद 371C मणिपुर/
Article 371C
Manipur




अनुच्छेद 371 आंध्रप्रदेश (D)
/Article 371 Andhra Pradesh

(E)

अनुच्छेद 371E आंध्रप्रदेश में केन्द्रीय
विश्वविद्यालय / Article 371E Central
University in Andhra Pradesh

अनुच्छेद 371F सिक्किम
/Article 371F Sikkim

Forest





अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन
बने रहना

/Article 372 Remaining in force of
existing statutes

अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में बंद व्यक्तियों के
संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति (संसद राष्ट्रपति)
/Article 373 Powers of the President
(Parliament President) in relation to
persons under preventive detention

अनुच्छेद 372A विधियों का अनुकूलन
करने की राष्ट्रपति की शक्ति /Article 372A
Power of President to adapt laws



1935 Federal

अनुच्छेद 374

संघीय न्यायालय के न्यायाधीश S.C. न्यायाधीश

/Article 374

Federal Court Judge S.C. Judge

अनुच्छेद 376 पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

राज्य H. C. के न्यायाधीश

/Article 376 Former High Court Judges

State H. C. K Judge

अनुच्छेद 375 पूर्व न्यायालय

प्राधिकारी का कृत्य करते रहना

/Article 375 Why pre-judicial

authority to act



अनुच्छेद 377

पूर्व

CAG



CAG

अनुच्छेद 378 पूर्वी

लोक सेवा आयोग



लोक सेवा आयोग



FR 7th CAA-1956

अनुच्छेद 379 से 391



अनुच्छेद-392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति



Short Table



भाग - 22 संक्षिप्त नाम,
प्रारंभ निरसन
अनुच्छेद 393 से 395





26 Jan 1950

अनुच्छेद 393 संविधान का नाम
/Name of Article 393 of the Constitution

अनुच्छेद 395 का निरसन
/Repeal of Article 395

The

अनुच्छेद 394 प्रारंभ

5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379,
380, 388, 391, 392, 393

26 NOV 1949



Thank

you

